

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली
हौज खास, नई दिल्ली -110016
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
Hauz Khas, New Delhi-110016
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/RP03776/ 342906

Dated: 10/08/2021

Advertisement No.: IITD/IRD/130/2021


Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अर्पॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	DST-IITD Energy Storage Platform on Batteries (ESPOB) (Multi-Institutional Project) (RP03776G)	
Funding Agency	Ministry of Science & Technology (DST)	
Name of the Project Investigator	Prof. Anil Verma [email:anilverma@iitd.ac.in]	
Deptt./Centre	Department of Chemical Engineering	
Duration of the Project	Upto:30/06/2024	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Sr. Research Fellow / Jr. Research Fellow (1)	Rs.35,000/-pm plus HRA @ 24% (for SRF) OR Rs.31,000/-pm plus HRA @ 24% (for JRF)	1 st class B.Tech. in Electronics and Communication with min. 2 years of relevant experience with GATE* qualification OR 1 st class M.Tech. in Power Electronics/Instrumentation with GATE* qualifications with two years of research experience. The candidate should have working experience on power electronics for battery and/or LABVIEW. *The requirement of GATE examination for the selection to the post of JRF/SRF may be relaxed for the candidates who have graduated from Centrally Funded Technical Institutes (CFTIs) with a CGPA of more than 8.000 (80% aggregate marks).

The post of SRF may be downgraded to JRF as per discretion of the Selection Committee if none of the candidate is found suitable for the post.

The candidates who are interested to apply for the above post should download Form No. IRD/REC-4 from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Anil Verma at email id: anilverma@iitd.ac.in

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the online interview details. **Only short-listed candidates will be informed for online interview.** In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact **Prof. Anil Verma at email id: anilverma@iitd.ac.in** 5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। **The last date for submitting the completed applications by e-mail is 24/08/2021 by 5.00 p.m.** The shortlisted candidates who are called for interview should bring original certificates (both professional and academic) with a recent passport size photograph at the time of interview.


सहायक कुलसचिव, आईआरडी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Anil Verma, PI, Department of Chemical Engineering
- Copy to Chairperson, DRC/CRC
- Dr. Harshita Bhatnagar, RD Coordinator, (R&D) Wing